

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग —खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५४०] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर ४ १९६७/अग्राहायण १३, १८८९

No. 549] NEW DELHI, MONDAY, 4, 1967/AGRAHAYANA 13, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th December 1967

S.O. 4355.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Exports (Control) Order, 1962, namely:—

In Part B of Schedule I to the said Order after item 65, the following item shall be added:—

“66 Quinine, Quinine Products and Cinchona Alkaloids”

[No. E(C)O, 1962/AM(166).]

P. D. KASBEKAR,

Chief Controller of Imports & Exports.

(Issued from File No. 22/2]67-E.II.)

(1781)

